

## प्रेस नोट दिनांक- 07.11.2020

(1). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 07.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु बस स्टैण्ड कर्वी, ईटा मण्डी, ट्राफिक चौराहा में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 98 वाहनों का चालान किया गया। जिसमें से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न करने वाले 16 वाहनों/व्यक्तियों से 2700 रुपये एवं 82 वाहनों से 81400 रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा पं0 शिवकुमार त्रिपाठी इण्टर कॉलेज मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा रामनगर में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम भतगवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा ग्राम खिचड़ी में एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(3). आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली एवं भाई-दूज को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री संगम लाल गुप्ता उपजिलाधिकारी मानिकपुर एवं श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ की अध्यक्षता में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर की उपस्थिति में थाना मानिकपुर परिसर में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी को गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महोदय द्वारा उपस्थित लोगों से त्यौहार सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर समाधान हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये। उपस्थित सभी लोगों से आने वाले त्यौहारों को सद्भावपूर्वक भाई-चारे के साथ एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की।

इसी क्रम में थाना मारकुण्डी में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी को गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी द्वारा उपस्थित लोगों से आने वाले त्यौहारों को सद्भावपूर्वक भाई-चारे के साथ एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथान हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी निरीक्षक श्रीमती शालिनी एवं श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त काशी पुत्र रामलाल निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 44 क्वार्टर देशी शराब मस्ती व मिरण्डा ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

44 क्वार्टर देशी शराब मस्ती व मिरण्डा ब्राण्ड

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. आबकारी निरीक्षक शालिनी
2. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
3. उ0नि0 श्री राकेश कुमार
4. आरक्षी प्रकाश
5. महिला आरक्षी निशा